

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 2014/पौष 24, 1935

No. 91]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 2014/PAUSHA 24, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2014

का. आ. 91(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मल्लावरम (आंध्र प्रदेश) से भीलवाड़ा (राजस्थान) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड द्वारा मल्लावरम—भोपाल—भीलवाड़ा—विजयपुर पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए; और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि, जिसके नीचे पाइपलाईन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना जिला वर्धा से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के संबंध में श्री. श्रीकांत शरद फडके, सक्षम प्राधिकारी, जी.एस.पी.एल. इंडिया ट्रांसको लिमिटेड, मल्लावरम—भोपाल—भीलवाड़ा—विजयपुर पाइपलाईन परियोजना, 49, स्वप्नषिल्प नगरी, राजेश्वरी पार्क, स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावनकोर के बगल में, बेलतरोडी रोड, बेसा, नागपूर - 440034 (महाराष्ट्र राज्य) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला : वर्धा			राज्य : महाराष्ट्र		
तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नं./गट नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
समुद्रपुर	पाठर	215 / 2	00	25	13
समुद्रपुर	पचगव्हाण	20 / 2	00	07	60
समुद्रपुर	शिवणी	113	00	43	34
समुद्रपुर	औरंगपूर	65	00	35	86
सेलू	खडकी आ.	129	00	00	04
		128 / 1	00	19	60
		128 / 2	00	10	00
		127	00	15	17
		124 / 2	00	02	20
		124 / 1	00	11	03
		114 / 2	00	00	17

[फा. सं. एल-14014 / 9 / 2013-जी.पी.-II]
श्रीप्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2014

S.O. 91(E).-- Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas from Mallavaram in the State of Andhra Pradesh to Bhilwara in the State of Rajasthan under Mallavaram – Bhopal – Bhilwara - Vijaipur pipeline should be laid by the GSPL India Transco Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, in Wardha District of Maharashtra State and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land, to Shri Shrikant Sharad Phadke, Competent Authority, GSPL India Transco Limited, Mallavaram – Bhopal – Bhilwara - Vijaipur Pipeline Project, H.No. 49, Swapnashilp Nagri, Rajeshwari Park, Beside State Bank of Travancore, Beltarodi Road, Besa, Nagpur – 440034 (Maharashtra State).

SCHEDULE

District : Wardha			State : Maharashtra		
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No./Gat No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. Mt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Samudrapur	Pathar	215/2	00	25	13
Samudrapur	Pachgavhan	20/2	00	07	60
Samudrapur	Shivani	113	00	43	34
Samudrapur	Aurangpur	65	00	35	86
Selu	Khadki Aa	129	00	00	04
		128/1	00	19	60
		128/2	00	10	00
		127	00	15	17
		124/2	00	02	20
		124/1	00	11	03
		114/2	00	00	17

[F. NO. L-14014/9 /2013-G.P.-II]
S. P. AGARWAL, Under Secy.